

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2022 थाना समाधान दिवस

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर श्री संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द द्वारा थाना इटवा पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर सुनी गयी जनता की फरियाद

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर श्री संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द द्वारा आज दिनांक 10-09-2022 को थाना इटवा पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए जिन प्रार्थन-पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके।

प्रेस नोट दिनांक- 10-09-2022 थाना इटवा

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना इटवा का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक इटवा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

आज दिनांक 10-09-2022 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना समाधान दिवस के अन्तर्गत जनसुनवाई के पश्चात थाना इटवा का निरीक्षण किया गया, महोदय द्वारा थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस/महिला हेल्प डेस्क/साइबर कक्ष इत्यादि का गहनता से निरीक्षण किया गया एवं थाना परिसर में घूमकर परिसर की समुचित साफ-सफाई का निरीक्षण किया गया। प्रभारी निरीक्षक इटवा बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी को थाने के अभिलेखों को अद्यतन रखने, जनता के व्यक्तियों/पीड़ित/फरियादी की सुनवाई त्वरित एवं न्यायसंगत होने के संबंध में निर्देश दिए गए तथा अपराध की घटनाओं पर रोकथाम एवं सघन चेकिंग हेतु सायंकाल नियमित एवं रूटीन फूट पैट्रोलिंग, रात्रि गश्त व पिकेट ड्यूटी हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा ग्राम-प्रहरीगण से ड्यूटी कुशलता एवं समस्या आदि के सम्बन्ध में भी जानकारी ली गई।

प्रेस नोट दिनांक 10.09.2022 महिला थाना

भारत रत्न पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त के 135वीं जयंती के अवसर पर जय किसान इण्टर कालेज सकतपुर सनई में बालक व बालिकाओं को जागरूक किया गया।

भारत रत्न पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त के 135वीं जयंती के अवसर पर जय किसान इण्टर कालेज सकतपुर सनई तिराहा में विद्यालय निरीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.09.2022 को मीरा चौहान महिला थानाध्यक्ष द्वारा माल्यार्पण व पुष्प अर्पित जयंती मनाई गयी इस अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बालक व बालिकाओं के सशक्तिकरण, स्वावलम्बन, सुरक्षित परिवेश, आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु 1090, 112,108,102,1076 आदि हेल्पलाइन नम्बर के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा भारत रत्न पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त के जीवन के विषय में बालक व बालिकाओं को बताया गया।

प्रेस नोट दिनांक 10.09.2022 थाना डुमरियागंज

फर्जी मार्कशीट व दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहे 01 नफर अभियुक्त को एसटीएफ0 व थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 10.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर फर्जी मार्कशीट व दूसरे के नाम पर नौकरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2022 धारा 419,420,467,468,471 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज कुमार जायसवाल पुत्र रामनाथ जयसवाल ग्राम नकहा जंगल थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया ।

अभियुक्त का विवरण:-

01. मनोज कुमार जायसवाल पुत्र रामनाथ जयसवाल ग्राम जंगल नकहा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. निरीक्षक कृपा शंकर मौर्य थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह (एसटीएफ) मय टीम ।
04. हेड कांस्टेबल बीरबल यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
05. कांस्टेबल ओंकार तिवारी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
06. कांस्टेबल धीरज प्रजापति थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
07. कांस्टेबल तेज बहादुर यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
08. कांस्टेबल अवध बिहारी सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2022

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 10-09-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावली का सफल निस्तारण कर दोनों परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है । दोनों परिवारों को बिखरने से बचाने मे महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान ,म०हे०मु० सविता सिंह, ,महिला आरक्षी नेहा सिंह, महिला आरक्षी अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. सोनमती पत्नी वीरेंद्र साकिन गुदरही धोरीकुइयां, थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. खैरुन्निसा पत्नी अमीरउल्लाह साकिन महथा बाजार, थाना शोहरतरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रस नोट दिनांक 10-09-2022 थाना समाधान दिवस

जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन कर फरियादियों की शिकायतों की सुनवाई कर निस्तारण किया गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 10-09-2022 को जनपद के समस्त थानों पर भी "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सहित समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारी/थानाध्यक्षगण द्वारा प्राप्त जनशिकायतों की सुनवाई कर निस्तारण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सुरेश चन्द्र रावत द्वारा थाना जोगिया उदयपुर व थाना उसका बाजार पर जनसुनवाई किया गया।

प्रस नोट थाना ढेबरुआ दिनांक 10/09/2022

थाना ढेबरुआ पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष ढेबरुआ हरिओम कुशवाहा के नेतृत्व में आज दिनांक 10/09/2022 को थाना ढेबरुआ पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत ग्राम धनौरी से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से बरामद 26 पशुओं को सुपुर्दगी में दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

जगन्नाथ यादव पुत्र स्व रामकिशन निवासी चनइ थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उप निरीक्षक श्री बृजेश सिंह थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

आरक्षी धीरज यादव थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

प्रस नोट दिनांक: 10.09.2022 थाना सिद्धार्थनगर

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज के कर्मचारी के साथ मार-पीट करने के आरोप में वांछित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के तहत सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा अखिलेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में दिनांक: 10.09.2022 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज के कर्मचारी के साथ मार-पीट करने के आरोप में पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2022 धारा 332/333/504/506 भा0द0वि0 से सम्बंधित और वांछित तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. भानू पुत्र देवीदीन निवासी पिठनी बुजुर्ग मोहल्ला विजयनगर थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर।
2. सोनू पुत्र हरिओम निवासी पिठनी बुजुर्ग मोहल्ला विजयनगर थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर।

3. करन पुत्र राकेश पिठनी बुजुर्ग निवासी मोहल्ला विजयनगर थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उप निरीक्षक सर्वेश चंद्र थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. का. धीरेंद्र यादव थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. का. दिनेश यादव थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. का. सुर्यकांत निषाद थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 10.09.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा मोडिफिकेशन, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म एवम वाहनों पर अवैध रूप से लगाए गए नेम प्लेट आदि के विरुद्ध अभियान चलाया गया विशेष अभियान ।

आज दिनांक 10.09.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म लगाने एवम वाहनों पर अवैध रूप से लगाए गए नेम प्लेट आदि के विरुद्ध अभियान चलाया गया । चेकिंग के दौरान यातायात व जनपदीय पुलिस की टीमों द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वाले 85 वाहनों से 91000/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 10.09.2022 आपरेशन कवच

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में आपरेशन कवच के सम्बन्ध में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारीगण व जनपद सिद्धार्थनगर के बार्डर थानों के प्रभारी/थानाध्यक्ष के साथ गोष्ठी सम्पन्न ।

आज दिनांक 10-09-2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल 43वीं वाहिनी के अधिकारियों व भारत-नेपाल सीमा से लगे जनपद सिद्धार्थनगर के थाने एवं चौकियों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारीगण के साथ **ऑपरेशन कवच** के सम्बन्ध में थाना मोहाना अंतर्गत ककरहवा बॉर्डर/कस्बा स्थित 43वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी (कम्पनी मुख्यालय) पर गोष्ठी की गयी । गोष्ठी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग किये जाने व ग्राम सुरक्षा समिति के क्रियान्वयन व क्रास बार्डर अपराधियों पर प्रभावी अंकुश हेतु दिशा-निर्देश दिये गये । *गोष्ठी के पश्चात सीमा सुरक्षा बल व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ककरहवा सीमा पर फुट पेट्रोलिंग की गयी ।* इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, SSB 43वीं कमांडेण्ट, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, क्षेत्राधिकारी सदर, शोहरतगढ़, बार्डर थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारीगण व अन्य पुलिस/SSB कर्मी मौजूद रहे ।

बच्चा चोरी की फैल रही अफवाहों के संबंध में सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपील

प्रायः देखने में आ रहा है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बच्चा चोर गैंग द्वारा बच्चा चोरी करने की अफवाहें प्रसारित हो रही हैं। सिद्धार्थनगर पुलिस इस बात को लेकर सतर्क दृष्टि बनाये हुये है, सभी से अनुरोध है कि बच्चा चोर के शक में अनावश्यक और बिना पुष्टि किये किसी महिला/पुरुष के साथ मारपीट/हिंसा न की जाये। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कानून अपने हाथ में लेकर भविष्य में किसी के साथ मारपीट/हिंसा प्रकाश में आती है तो उक्त मारपीट करने वाले लोगो को चिन्हित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

यदि कहीं पर ऐसी सम्भावना लगती है तो तत्काल संबंधित थाना प्रभारी/यूपी-112 को सूचना दें जिससे पुलिस के स्तर से जांच कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

ऐसे तत्वों की पहचान कराने में मीडिया से भी सहयोग की अपील की जाती है, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

प्रायः ऐसी घटनाओं को सोशल मीडिया विशेषकर वाट्सअप/फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से प्रसारित कर समाज में भय का माहौल उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास भी कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा किया जाता है।

अतः ऐसी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और न ही उन्हें प्रसारित करें बल्कि किसी भी तरह की समस्या होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करें।

प्रेस नोट दिनांक: 10.09.2022 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व हरीश चंद्र

क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष मिश्रौलिया घनश्याम सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2022

को मु0अ0सं0-171/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. फूलचंद्र पुत्र कामता साकिन नगपारी टोला लमतिया थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.10 लीटर कच्ची शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस का विवरण-

01. हे0का0 उमेश यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

02. का0 आकाश कुमार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 10.09.2022

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.09.2022 को शक्ति मोबाइल / प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र में स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

01- महिला उ0नि0 पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।

02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2022

थाना लोटन पुलिस द्वारा 04 बोरी यूरिया खाद मय 02 अदद मोटर सायकिल के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व देवनन्दन उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में दिनांक 10.09.2022 को उ0नि0 राकेश कुमार व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा कार्यवाही के क्रम मे 02 नफर तस्करों को गिरफ्तार कर धारा 11 कस्टम अधिनियम की कार्यवाही की गयी । कब्जे से 04 बोरी यूरिया खाद व 02 अदद मोटरसायकिल बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. अख्तर अली पुत्र रहीस साकिन रसिआवल खुर्द टोला गुलरिहा थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 25 वर्ष

2. बुद्धिराम यादव पुत्र मोल्हू साकिन रसियावल खर्द थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण

04 बोरी यूरिया खाद, 02 अदद मोटरसायकिल सायकिल(1.UP55AE4934 हीरो एचएफ डिलक्श, 2. UP55W9026 हीरो स्पलेण्डर प्लस)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 राकेश कुमार थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

2. का0 हेमन्त कुमार थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

3. का0 बबलू प्रसाद थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर